



सक्षम
हरियाणा

म्हारा हरियाणा, सक्षम हरियाणा



**CREATIVE AND CRITICAL THINKING
REFERENCE & PRACTICE
MATERIAL**

Hindi, Class-8

(ल्हासा की ओर व वाख आधारित)



**TESTING AND ASSESSMENT WING
STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL
RESEARCH & TRAINING
GURUGRAM (HARYANA)**

प्रतिमान : 1 (लहासा की ओर - पाठ - साम्य आधारित स्व-रचित गद्यांश)

प्रीतम और प्रवीण दोनों पड़ोसी थे। स्कूल और कॉलेज में साथ ही पढ़े थे ; किन्तु जीविका की चिंता ने इन दोनों लंगोटिया दोस्तों का साथ छुड़वा दिया था। अब वे अलग - अलग शहरों में रह रहे थे। इसी तरह से काफ़ी लंबा समय बीत गया। इस बार दोनों ने इस दूरी को मिटाने की सोची और तय किया कि इस दीवाली पर जब घर जाएँगे तो पूरा एक दिन साथ बिताएँगे ।

आज वह शुभ दिन आ ही गया जब दोनों एक दूसरे के सामने थे। उन्होंने मिलने का स्थान भी शहर के बीचों बीच बसे उस की पार्क को चुना जिसमें खेल - खेलकर दोनों का बचपन बीता था। आज वर्षों के बाद एक - दूसरे को देख जैसे दोनों अपने बचपन में ही पहुँच गए थे। एक - एक करके बचपन के सारे किस्से दोनों की आँखों में तैरने लगे । दोनों के चेहरे की चमक मानों उनकी खुशी का इज़हार कर रही थी। उनके आस पास बैठे लोग भी उन्हें देखकर आनंदित हुए जा रहे थे। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रीतम ने प्रवीण से कहा , " प्रवीण ! क्या तुम्हें याद है श्रीनगर की वो यात्रा जो हमने सड़क माध्यम से की थी " " अमांयार! उस यात्रा को कैसे भूल सकता हूँ मैं! इतनी रोमांचक यात्रा तो आजतक नहीं की। " प्रवीण ने कहा । "जीवन के सबसे यादगार क्षण वही थे। मुझे आज भी याद है जब हम स्नातक द्वितीय वर्ष में पढ़ा करते थे और इस पर्वतीय यात्रा पर जाने की अनुमति पिता जी से बा-मुश्किल मिली थी " प्रवीण की आँखों में झाँकती हुई गहराई को प्रीतम पढ़ पा रहा था । " उस शाम की तस्वीर तो आज भी धुंधली नहीं हुई जब हम समुद्रतल से लगभग 18000 हजार फीट ऊपर थे और टूरिस्ट बस पर सवार होकर ऊपर की ओर चले जा रहे थे। जम्मू से श्रीनगर तक की 300 कि.मी. की दूरी तय करने में ही 10 घंटे लग गए थे। किन्तु घाटी में पहुँच कर कुदरत के सौन्दर्य का भंडार देख कर सारी थकान मानो काफूर हो गई थी।

गद्यांश आधारित प्रश्न -

1. गद्यांश में प्रयुक्त किन्ही 2 मुहावरों को पहचान कर लिखिए ।
2. यदि कक्षा 1 में प्रवीण और प्रीतम ने 5 वर्ष की आयु में प्रवेश लिया हो तो उन्होंने पर्वतीय यात्रा कितने वर्ष की आयु में की होगी ?
3. 300 कि.मी. की दूरी तय करने में बस को 10 घंटे लगे,आपके विचार से इतना अधिक समय क्यों लगा होगा ?
4. श्रीनगर एक..... है -
क) पहाड़ी ख) चोटी ग) पर्वत घ) घाटी
5. 'अतीत' शब्द के दो पर्यायवाची बताकर, उन्हें वाक्य में प्रयोग करे।
6. प्रीतम प्रवीण की आँखों में क्या पढ़ने का प्रयास कर रहा होगा? 20-30 शब्दों में उत्तर लिखिए

- इन्दुबाला, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम

प्रतिमान : 2 (ल्हासा की ओर - पाठ आधारित)

देहरादून गढ़वाल क्षेत्र का एक भाग है, इसलिए यहां की संस्कृति पर स्थानीय रीति-रिवाजों का काफी प्रभाव है। गढ़वाली यहां बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा है। यहां पर विभिन्न समुदाय और धर्मों को मानने वाले लोग प्यार के साथ रहते हैं , यहां पर लगातार शिक्षा सुविधाओं के विकास , संचार तंत्र के दिन -ब-दिन मजबूत होने और परिवहन व्यवस्था के निरंतर विकास के कारण देहरादून की सामाजिक और सांस्कृतिक , आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। बदलाव की इस धारा को देहरादून में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देहरादून देश के सर्वोत्तम शिक्षा संस्थानों में अग्रणी है। नीली पट्टी वाली बसें देहरादून की सड़कों की पहचान है। इसके अतिरिक्त यातायात के लिए तीन पहिए वाला विक्रम बहुत लोकप्रिय है। यहां की परंपरागत पोशाक उनी कंबल , जिसे लाबा कहते हैं, अब भी ऊंचाई पर स्थित गांव में पहने जाते हैं । औरतें पूरी बाहों की कमीज के साथ साड़ी पहनती हैं। नौजवान औरतें घागरा पहनती हैं । दूसरी तरफ पुरुष आमतौर से मिरजई , अंगरखा, लंगोट या धोती बांधते हैं। यहां के जंगलों में भांग उगती है। भांग का धागा सूत के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे भांगला कहते हैं। यहां के लोगों का भोजन सादा है। भोजन में दाल भात , रोटी शामिल है। उड़द की दाल का वड़ा और गेहत की दाल का वड़ा यहां का लोकप्रिय भोजन है। देहरादून में आप प्राचीन स्थापत्य के सुंदर नमूने देख सकते हैं, जो काफी आकर्षक और सुंदर हैं। देहरादून में बनने वाले भवनो की सबसे बड़ी खासियत है, ढालुआं छत। इसका कारण यह है कि यहां मूसलाधार वर्षा होती है।

गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

प्रश्न1. देहरादून किस राज्य में स्थित है?

उत्तर (अ) हिमाचल प्रदेश (ब) उत्तराखंड (स) हरियाणा (द) पंजाब

प्रश्न 2. देहरादून की प्राथमिक भाषा कौन सी है?

उत्तर (अ) गढ़वाली (ब) डोगरी (स) बांगरू (द) हरियाणवी

प्रश्न 3. देहरादून शहर से हवाई अड्डे की दूरी 28 किलोमीटर है और यदि रिक्शा चालक ₹ प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लेता है तो हवाई अड्डे तक सवारी को पहुंचाने का कितना किराया वसूल करेगा?

प्रश्न 4. देहरादून की नीली पट्टी वाली बस यदि 1 घंटे में 55 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि देहरादून से दिल्ली 275 किलोमीटर दूर है तो देहरादून से सुबह 7:00 बजे चली बस दिल्ली कितने बजे पहुंचेगी।

प्रश्न 5. गढ़वाल क्षेत्र के पहनावे व आपके अपने क्षेत्र के पहनावे में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए?

- श्री ओम प्रकाश, प्रवक्ता , रा०व०मा०वि० मीठी सुरेरां ब्लाक ऐलनाबाद, सिरसा

प्रतिमान : 3 (ल्हासा की ओर - पाठ आधारित)

पर्वतीय प्रदेश का जीवनचक्र ही निराला होता है। मैं खिड़की के पास बैठा था और पर्वतीय दृश्यों को देख रहा था। रेल के डिब्बे से उनके छोटे-छोटे घर बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं उस दृश्य का आनंद ले रहा था। कालका स्टेशन आ गया। यह पर्वतीय प्रदेश का छोटा सा जंक्शन है। इसी स्थान पर मैंने देखा लोग पहाड़ी वेश-भूषा पहने इधर- उधर घूम रहे थे। सौम्यता और सादगी उनके मुख से झलकती थी , पर उनमें परिश्रम करने तथा परिस्थितियों से जूझने का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच हमने कुछ जलपान किया। तभी हमें शिमला के लिए गाड़ी मिली। इस गाड़ी में चार-पांच डिब्बे थे तथा इसके दोनों ओर इंजन जुड़े हुए थे। रास्ता चक्करदार तथा संकरा था। ठंड से हम सिकुड़े जा रहे थे। हम शिमला पहुँच गए। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ आधुनिक ढंग के मकान बने हुए हैं। शहर में कई सिनेमा घर हैं जो आकर्षण को और भी बढ़ाते हैं। मुझे स्केटिंग करने में बड़ा मज़ा आया। शिमला प्रवास के दौरान हमने राजभवन तथा इस नगरी का कोना-कोना छान मारा। हम वहाँ तीन दिन रहे। इन तीन दिनों में हमने दूर-दूर तक फैली प्रकृति की सुषमा का भरपूर आनंद लिया। ऊँची-ऊँची पर्वत मालाएँ , घाटियाँ, भाँति-भाँति के पुष्पों से लदे वृक्ष देखकर ऐसा मन कर उठा कि सारी उम्र यहीं बिता दें। तीन दिन के प्रवास के बाद हम वहाँ से चल पड़े। इस बार हम बस द्वारा चले। बस से हमने ऊँची-नीची पहाड़ियाँ देखीं तथा चक्करदार साँपनुमा मोड़ देखे , जिनके नीचे गहरे गड्ढे थे। पर्वतों के आस-पास हरियाली , खेत में हमें आकृष्ट कर रहे थे। परंतु हम धीरे-धीरे इस प्रदेश से दूर होते गए और अपने घर आ गए।

प्र 1 कालका से शिमला तक चलने वाली ट्रेन को किस नाम से पुकारा जाता है ?

प्र 2 प्रवास शब्द का क्या अर्थ है ?

प्र 3 एक रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने पाया कि वह एक मिनट में 21 बिजली के खंभों की गिनती कर सकता है | यदि दो निकटतम खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है ?

(अ) 40 कि.मी.प्रति घंटा (ब) 55 कि.मी.प्रति घंटा

(स) 60 कि.मी.प्रति घंटा (द) 45कि.मी.प्रति घंटा

प्र 4 ऊँची-ऊँची तथा दूर-दूर में कौन सा अलंकर है ?

प्र 5 एक रेलगाड़ी कालका से शिमला के लिए प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर 25 कि.मी.प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है यदि कालका से शिमला की दूरी 80 कि.मी है तो रेलगाड़ी शिमला स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी ?

-सरिता बी० आर० पी० हिन्दी , बेरी, झज्जर

प्रतिमान : 4 (ल्हासा की ओर - पाठ आधारित)

पिछले दिनों हमें नई दिल्ली से सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाने का मौका मिला। गंगटोक जाने के लिए नई दिल्ली से नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस अथवा आसाम मेल से न्यू जलपाई गुड़ी रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है और वहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी तय करने पर सिलीगुड़ी नामक नगर आता है, जहाँ से आधे - आधे घंटे के अंतराल से कुर्सियांग, गंगटोक तथा दार्जिलिंग की बसें जाती रहती हैं। हम लोग न्यू जलपाई गुड़ी करीब 3:00 अपराहन पहुंचे थे और वहाँ से हमने ऑटो रिक्शा से 8 किलोमीटर की दूरी तय की। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से गंगटोक के लिए हम बस में सवार हो गए। गंगटोक जाने में तिस्ता नदी को कई बार पार करना पड़ता है। यह पहाड़ी नदी है जिसका प्रभाव काफी तेज है। गंगटोक समुद्र तल से करीब 5800 फीट की ऊंचाई पर बसा एक सुरम्य नगर तथा सिक्किम राज्य की राजधानी है।

सिक्किम के पुराने बने भवन यद्यपि लकड़ी के हैं परंतु वहाँ अब तेजी से ईंटों के मकान बन रहे हैं। नया बना सचिवालय सिक्किम शैली का बना एक आकर्षक भवन है, जो काफी दूर से दिखाई पड़ता है। सिक्किम में पुराने शासकों का आवास तथा समीप बना बौद्ध मंदिर भी दर्शनीय है, जहाँ पहुंचने के लिए सुरक्षाकर्मियों से पूछना पड़ता है। सिक्किम की जनसंख्या 421500 है। निवासी प्रायः गौरवर्ण, चपटा मुखमण्डल किन्तु रक्तिम कपोल, आँखे पतली, कद छोटा तथा बातचीत में विनम्र और बलिष्ठ है। यहाँ गर्मियों का तापमान 20.7 सेंटीग्रेड से लेकर न्यूनतम 13.1 सेंटीग्रेड तक रहता है तथा जाड़े का तापमान 14.9 सेंटीग्रेड से 7.7 सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है।

गंगटोक जाने के लिए मार्च से मई तक का समय अच्छा रहता है। जाड़े में अक्टूबर से 15 दिसंबर तक का समय अच्छा माना जाता है। गंगटोक में प्रायः बादल छाए रहते हैं, और वर्षा भी काफी होती है। यहाँ का एक अन्य आकर्षक भवन तथा तिब्बती साहित्य का केंद्र तिब्बती विद्या का अनुसंधान संस्थान है। यहाँ चाय, धान तथा सब्जियों के खेत आकर्षक तो हैं ही, इसके साथ-साथ भगवान् बुद्ध की उपासना - स्थली के रूप में भी यह स्थान भारतवासियों के लिए ही नहीं। विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है।

उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

प्रश्न 1. नई दिल्ली से गंगटोक जाने के लिए लेखक ने किस प्रकार यात्रा तय की ?

प्रश्न 2. तिब्बती विद्या का अनुसंधान संस्थान किस धर्म सम्बंधित है ?

(क) जैन धर्म (ख) हिन्दू धर्म (ग) बौद्ध धर्म (घ) सर्वधर्म

प्रश्न 3. गंगटोक में आकर्षण के केंद्र कौन-कौन से हैं ? किन्हीदो के बारे में लिखिए।

प्रश्न 4. गंगटोक में जाने के लिए कौन –सा ऋतु उचित नहीं है ? और क्यों ?

प्रश्न 5. यदि सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक की जनसँख्या 421500 है जिसमें पुरुष-स्त्री अनुपात 2:3 हो तो पुरुषों की संख्या बताइए।

-किरण बाला प्रवक्ता, रा० क० व० मा० वि० डीघल, ब्लाक बेरी, झज्जर

प्रतिमान : 5 (वाख आधारित - पाठ आधारित)

ढूढने उसको चला तू , वो तो है हर पात में ,

ना किसी भी धरुड का वो, ना किसी भी जात में,

गर मनुज कुछ पाना चाहे, ढूढ अपने आपको

मन के भीतर झाँक, खोजो दिन अँधेरी रात में।।

प्रश्न 1 प्रथम पंक्ति में किसे ढूढने की बात हो रही है ?

प्रश्न 2 मन के भीतर झाँकने से कवि का क्या तात्पर्य है ?

प्रश्न 3 निम्न शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए।

पात , मनुज

प्रश्न 4 ईश्वर की प्राप्ति के लिए खुद को ढूढने की बात क्यों कही गई होगी?

प्रश्न 5 'अँधेरी रात में दिन' खोजने से क्या अभिप्रायः है?

-डॉ.अश्विनी शर्मा, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम

प्रतिमान : 6 (वाख पर आधारित स्वरचित)



उपरोक्त गीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

1. प्रस्तुत गीत किन भावों से ओत प्रोत है ?
2. कवयित्री के अनुसार उसने ईश्वर को किसके प्रभाव से भुला दिया है ?
3. कवयित्री को किस बात का पछतावा हो रहा है ? 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए ।
4. प्रदत्त कविता से रूपक अलंकार का उदहारण पहचानिए।
- 5 यदि हीरे की कीमत मोती की कीमत से 10% कम है तो मोती की कीमत हीरे से कितने प्रतिशत अधिक होगी ?

-समता यादव, टी०जी०टी० हिन्दी, रा० उ० वि० लाला , जाटुसाना

प्रतिमान : 7 (वाख पर आधारित स्वरचित)

परहित का अर्थ है 'दूसरों की भलाई'। यदि एक में दूसरे के हित के लिए हित की भावना है , तो दूसरे में भला करने की भावना छिपी हुई है। अपने हित की चिंता न कर दूसरों का हित करना ही सच्चे अर्थों में परहित है। धर्म का अर्थ है-पुण्य , कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार। यहां धर्म का अर्थ मजहब या मत नहीं है। यदि मजहब अर्थ है तो यह मजहब के प्रति द्वेष या बुरा करने का भाव लिए हुए नहीं है , बल्कि भलाई करने का भाव लिए हुए है। वास्तव में जिस आचरण या कार्य से समाज का कल्याण होता है वही धर्म है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख- दुख के साथ दूसरों की ओर भी ध्यान दें। अपनी स्वार्थ सिद्धि करना मानवता नहीं है। परहित ही सच्ची मानवता है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह धन से, मन से या तन से, तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। किसी को संकट से बचाना , किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुःखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि -मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं , तालाब आदि खुदवाकर तथा वृक्ष लगवा कर जनता का उपकार किया। यदि हमें वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना हो तो हम बस इसी सीधे-साधे इमानदारी, परहित के रास्ते चलते हुए उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य तो सभी प्राणियों से उत्कृष्ट है। इसलिए उसका परम कर्तव्य है कि वह निःस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों की सेवा करें। अगर मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहकर , सत्कर्म पर चलता हुआ ही भेदभाव रहित समाज का उत्थान कर सकता है। क्योंकि आत्मज्ञान को ही तो सच्चा ज्ञान माना जाता है।

गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

प्रश्न 1. परहित का शाब्दिक अर्थ क्या है?

- (अ) दूसरों की भलाई करना (ब) निंदा करना
(स) ईर्ष्या करना (द) भलाई के बदले भलाई चाहना

प्रश्न 2 हम किस तरह से परहित कर सकते हैं ?

प्रश्न 3. एक बच्चा हर रोज पक्षियों को दाना खिलाने पर 10 खर्च करता है और पक्षियों को पानी पिलाने के लिए 3 पानी के कटोरों पर खर्च करता है तो बताओ वह 15 दिन में कुल कितने रुपए खर्च करेगा ?

प्रश्न 4. अपने जीवन में किए गए किसी एक परोपकार के बारे में 25-30 शब्दों में बताएं

प्रश्न 5. परहित को श्रेष्ठधर्म क्यों कहा गया है?

- श्री ओम प्रकाश प्रवक्ता , रा०व०मा०वि० मीठी सुरेरां ब्लाक ऐलनाबाद, सिरसा

प्रतिमान : 8 (चार धाम प्रोजेक्ट)

केदारनाथ
चार धाम प्रोजेक्ट के तहत **900 किमी लंबे** राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा

बद्रीनाथ
इस प्रोजेक्ट में **12,000 करोड़** खर्च होंगे. इसमें **132 पुल**, **13 बाई पास** और **2 टनल** होगी

गंगोत्री
भूस्खलन से बचाव के लिए **अत्याधुनिक तकनीक** का इस्तेमाल होगा और हेलीकॉप्टर के लिए **हेलीपैड** बनेगा

यमुनोत्री
सुरगों और छोटे रास्तों से चारों धाम के बीच की दूरी घटकर **813 किमी** से **389 किमी** होगी

उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए-

1. पहाड़ों पर सड़क निर्माण में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कौन - कौन सी मुख्य समस्याएं हैं ?
2. चार धाम प्रोजेक्ट के तहत सड़क बन जाने पर दूरी में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आएगी?
3. चार धाम प्रोजेक्ट के तहत सड़क बन जाने पर सर्वप्रमुख लाभ क्या होगा ?
4. पहाड़ों पर सड़क बनाने का खर्चा मैदानों पर सड़क बनाने की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? कोई एक कारण लिखिए ।
5. चार धाम प्रोजेक्ट में बनाई जाने वाली को सड़क की प्रतिकिलोमीटर लागत क्या होगी ?
(क) 5.6 करोड़ रुपये (ख) 7.2 करोड़ रुपये (ग) 13.3 करोड़ रुपये (घ) 18.8 करोड़ रुपये

-डॉ० अजय सिंह प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मात्रशाम (हिसार)

प्रतिमान : 9 (किसान क्रेडिट कार्ड)



भारत सरकार की
किसान क्रेडिट कार्ड योजना

पशुपालकों को बढ़ाई! हरियाणा डेयरी के दुग्ध संघों से जुड़े वे पशुपालक, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वे आज ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से संपर्क करें।

पशुपालकों के लिए शुरुआत, वीटा आपके साथ

योजना की विशेषताएं

- हरियाणा डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादकों को विशेष अभियान के तहत **1 जून, 2020 से 31 जुलाई, 2020** तक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।
- क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बिना कुछ गिरवी रखे ₹1,60,000 है। सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए यह ऋण सीमा ₹ 3,00,000 तक हो सकती है, जोकि बैंकों पर निर्भर करेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले ऋणों के लिए, दुग्ध उत्पादकों को **2% के ब्याज की छूट** मिलेगी और ऋण का समय से भुगतान करने पर **3% ब्याज की अतिरिक्त छूट** मिलेगी।
- दुग्ध संघों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के फार्म नि:शुल्क प्रदान करवाए जा रहे हैं, जोकि सहकारी दुग्ध समिति के सचिव से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- जांच-पड़ताल के बाद फार्म सही पाए जाने पर **किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा दिए जाएंगे**।

1. किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड योजना के किसानों को होने वाले दो लाभ लिखिए ।
2. किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' कौन उपलब्ध करवाते हैं ?
3. यदि एक दुग्ध उत्पादक को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ₹ 20000 ब्याज की छूट मिलती है तो उसका कुल ब्याज कितना है?
4. सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए ऋण सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है ? विज्ञापन आधार पर बताइए
5. उपर्युक्त विज्ञापन को प्रोत्साहित करने वाली संस्था कौन सी है ?
(क) वीटा (ख) लक्ष्य (ग) अमूल (घ) सहकारी दुग्ध डेयरी

- श्री वीरेंद्र कुमार प्रवक्ता , रा० मा०व०मा०वि० शीशाय, हिसार

प्रतिमान : 10 (तुलसी मंत्रा)

100% Ayurvedic

इम्यूनिटी पावर बढ़ाए
एवं शरीर को रोगों से बचाएं

'तुलसी मंत्रा' तुलसी ड्रॉप्स अपनाएं

5 विभिन्न प्रकार की दुर्लभ तुलसियों का अर्क

तुलसी मंत्रा

तुलसी को 'जड़ी-बूटियों की रानी' और 'जीवन के लिए अमृत' माना जाता है। इसी के मद्देनजर देविता हर्बल केयर ने 'तुलसी मंत्रा' तुलसी ड्रॉप्स को बाजार में प्रस्तुत किया है, जिसमें 5 तुलसियों के अर्क का मिश्रण है। 'तुलसी मंत्रा' तुलसी ड्रॉप्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है एवम् जुकाम, खाँस, कोलेस्ट्रॉल, सर्दी, खाँसी, लीवर व संक्रमण जैसी बिमारियों पर नियंत्रण करने में मदद करता है।

जरूरी सूचना मिलते-जुलते नाम, पैकिंग, विज्ञापन इत्यादि से सावधान, भ्रमित न हों एवम् सर्वोत्तम 'तुलसी मंत्रा' ही खरीदें

Haryana S.S. Jain Associates (Hansi) : 9812527001, 9812211069, Ambala Cantt : 9800000000
9416224759, Asandh : 7357590000

विष्णु तुलसी : आलस्य दूर कर शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वर्णित।
वन तुलसी : शारीरिक कमजोरी, सांस की दुर्गंध इत्यादि के लिए वर्णित।
राम तुलसी : एंटी-बैक्टीरियल है, फेफड़ों के रोग, अस्थमा इत्यादि के लिए वर्णित।
कृष्ण तुलसी : हृदय, रक्तचाप, खून साफ, व रोग प्रतिरोधक के लिए वर्णित।
शुक्ला तुलसी : इम्यूनिटी बढ़ाने, सर्दी-जुकाम, श्वास व त्वचा आदि हेतु वर्णित।

25% EXTRA

तुलसी मंत्रा

तुलसी ड्रॉप्स

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए

5



प्रश्न 1 तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी क्यों कहा गया है? सतर्क उत्तर दीजिए।

प्रश्न 2 विद्यार्थी जीवन के आलस्य को दूर करने के लिए कौन सी तुलसी लेनी चाहिए?

प्रश्न 3 तुलसी - मंत्रा में कितने प्रकार की तुलसी का अर्क शामिल किया गया है ?

प्रश्न 4 अगर एक तुलसी मंत्रा की बोटल में 25 परसेंट ज्यादा तुलसी मंत्रा आती है तो 125% तुलसी मंत्रा के लिए कितनी बोतल खरीदनी होगी ?

क. 2 बोटल ख. 3 बोटल ग. 4 बोटल घ. 5 बोटल

प्रश्न 5 अगर एक तुलसी मंत्रा की बड़ी पैकिंग का मूल्य ₹260 है जिसमें 5 शीशी शामिल हैं यदि ग्राहक एक शीशी खरीदता है तो उसे अंकित मूल्य 60 रूपए अदा करने पड़ते हैं | बड़ी पैकिंग लेने पर ग्राहक को प्रति शीशी कितने प्रतिशत लाभ होगा?

-प्रवीण कुमारी प्रवक्ता, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, वडाला

उत्तरमाला

प्रतिमान -1

उत्तर -1 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -2 - 19 वर्ष

उत्तर -3 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -4 - घाटी

उत्तर -5 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर-6 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

प्रतिमान -2

उत्तर -1 - उत्तराखंड

उत्तर -2 - गढ़वाली

उत्तर -3 - 112 रु

उत्तर -4 - 12 बजे

उत्तर -5 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

प्रतिमान -3

उत्तर -1 - टॉय ट्रेन

उत्तर -2 - किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहना

उत्तर -3 - 60 कि.मी.प्रति घंटा

उत्तर -4 - पुनरुक्ति प्रकाश

उत्तर -5 - 9:27 बजे

प्रतिमान -4

उत्तर -1 - रेल व बस से

उत्तर -2 - बौद्ध धर्म से

उत्तर -3 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -4 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -5 -168600

प्रतिमान -5

उत्तर -1 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -2 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -3 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -4 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -5 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

प्रतिमान -6

उत्तर -1 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -2 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -3 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -4 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -5 - 11.1 % लगभग

प्रतिमान -7

उत्तर -1 - दूसरों की भलाई करना

उत्तर -2 - तन-,मन-धन

उत्तर -3 - 195 रु.

उत्तर -4 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -5 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

प्रतिमान -8

उत्तर -1 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -2 - 52.15 %

उत्तर -3 - दूरी में कमी

उत्तर -4 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -5 - 13.3 करोड़ रुपये

प्रतिमान -9

उत्तर -1 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -2 - सचिव सहकारी दुग्ध समिति

उत्तर -3 - 4 लाख

उत्तर -4 - 3 लाख

उत्तर -5 - वीटा

प्रतिमान -10

उत्तर -1 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे ।

उत्तर -2 - छात्र स्व-विवेक से उत्तर देंगे

उत्तर -3 - पाँच प्रकार

उत्तर -4 - 5 बोटल

उत्तर -5 - 15.38%